

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 140] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 1980/आषाढ़ 27, 1902
No. 140] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 1980/ASADHA 27, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1980

संख्या एफ. 2/2/80-एन. एस.—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय आर्थिक
कार्य विभाग की 16 अक्टूबर, 1973 की अधिसूचना संख्या एफ. 3(2)-एन. एस.-
72 के पैरा 1 के अनुसार, जिसमें बाद में संशोधन किया गया है, का निकाल कर
इनाम देने के लिए तैयारवां का 31 जुलाई, 1980 को पंचायत भवन हाल, चंडीगढ़
में होगा। इस का में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने शकघर

बचत बैंक में अपने-अपने खातों में कम से कम दो सौ रुपए जमा कर रखे होंगे जिस पर अक्टूबर, 1979 से मार्च, 1980 तक का ब्याज लगेगा। यह झा भारत सरकार की देखरेख में प्राप्त 10 बजे निकाला जाना आरम्भ होगा इसके लिए भारत सरकार ने एक समिति बनाई है जो इस प्रकार है :—

(1) श्रीमती जे. एस. नेकी, पत्नी प्रो. डा. जे. एस. नेकी निदेशक,
स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
—अध्यक्ष

(2) श्रीमती आर. सी. पाल, पत्नी प्रो. डा. आर. सी. पाल उप कुल-
पति, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़
—सदस्य

(3) श्रीमती जी. आर. विज, अवैतक सचिव, पंजाब रेड क्रॉस
मोसायटी चण्डीगढ़
—सदस्य

(4) श्रीमती सुरेन्द्रपाल कौर, पंजाब सरकार के आयकर सलाहकार,
चंडीगढ़
—सदस्य

(5) श्री एस पी भाटिया निदेशक अल्प बचत, हरियाणा, चण्डीगढ़
—सदस्य

(6) श्री एस. सी. पंडित, निदेशक अल्प बचत, पंजाब, चण्डीगढ़
—सदस्य

(7) श्री बरयाम सिंह, निदेशक सरकार पर्यटन और लोक सम्पर्क, संघ
राज्य प्रशासन, चण्डीगढ़
—सदस्य

(8) श्री एम. वाई. परिवालकर, महालेखाकार पंजाब और हरियाणा,
चण्डीगढ़

(9) श्री गीपेश सी. तालुकदार, राष्ट्रीय बचत आयुक्त, 12 सिमिनरी
—सदस्य

हिल्स, नागपुर

सचिव

ए सी तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 1980

No F 2/8/80-NS.—In pursuance of para 1 of the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic

Affairs No. F. 3(11)-NS/72 dated the 16th October, 1973, as amended subsequently, the Thirteenth Draw for the award of prizes to be decided by draw of lots from among account-holders in the Post Office Savings Bank, who have kept a balance of not less than Rs. 200, which qualified for interest during the period from October, 1979 to March, 1980 will be held on the 31st July, 1980 at the Panchayat Bhavan Hall, Chandigarh. The draw will commence at 10 A.M. and will be held under the supervision of the Government of India. For this purpose the Government of India have constituted a Committee as follows :—

- | | |
|---|----------------------|
| (1) Mrs. J. S. Neki, W/o Prof. Dr. J. S. Neki, Director,
Post Graduate Institute of Medical Science & Research, Chandigarh | ...Chairman |
| (2) Mrs. R. C. Paul, W/o Prof. Dr. R. C. Paul, Vice
Chancellor, Punjab University, Chandigarh | ...Member |
| (3) Mrs. G. R. Vij, Honorary Secretary, Punjab Red
Cross Society, Chandigarh | ...Member |
| (4) Mrs. Surinderpal Kaur, Income Tax - Adviser to
Punjab Government, Chandigarh | ...Member |
| (5) Shri S. P. Bhartia, Director Small Savings, Haryana,
Chandigarh | ...Member |
| (6) Shri S. C. Pandit, Director Small Savings, Punjab,
Chandigarh | ...Member |
| (7) Shri Waryam Singh, Director Hospitality, Tourism &
Public Relation, U.T. Administration, Chandigarh | ...Member |
| (8) Shri M. Y. Priolkar, Accountant General, Punjab &
Haryana, Chandigarh | ...Member |
| (9) Shri Neepesh C. Talukdar, National Savings Com-
missioner, 12, Siminary Hills, Nagpur | ...Member-Secretary. |

A. C. TIWARI, Jt. Secy.

